



अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम 2020

सीएसआईआर-निस्केयर

वेबिनार : स्वस्थ तन और मन के लिए योग



कार्यक्रम

- 12.00 - 12.05 PM वक्ताओं का परिचय
- 12.05 - 12.15 PM स्वागत, श्री हसन जावेद खान, सीएसआईआर-निस्केयर
- 12.15 - 12.30 PM डॉ. अन्विता सिंह का व्याख्यान
- 12.30- 12.45 PM श्री सुभाष चंद्र केसरवानी का व्याख्यान
- 12.45 - 1.00 PM डॉ. सुशील चंद्र का व्याख्यान
- 1.00 - 1.10 PM धन्यवाद ज्ञापन



वक्तागण



डॉ. सुशील चंद्र
वैज्ञानिक 'जी', इन्मास
डीआरडीओ, नई दिल्ली



सुभाष केसरवानी
निदेशक, संचार मंत्रालय,
केरल



डॉ. अन्विता सिंह
चिकित्सा अधिकारी
एम्स, ऋषिकेश

Join us on: <https://tinyurl.com/yc346k3g>

22 जून, 2020; 12:00 -1:10 PM



International Day of Yoga Celebration 2020

CSIR-NISCAIR

Webinar on: Yoga for a Healthy Body and Mind



Programme

- 12:00 - 12:05 PM: Introduction of Speakers
- 12:05 - 12:15 PM: Welcome Address, Shri Hasan Jawaid Khan, CSIR-NISCAIR
- 12:15 - 12:30 PM: Lecture by Dr Anvita Singh
- 12:30 - 12:45 PM: Lecture by Shri Subhash Chandra Kesarwani
- 12:45 - 1:00 PM: Lecture by Dr Sushil Chandra
- 1:00 - 1:10 PM: Vote of Thanks



Speakers



Dr Sushil Chandra
Scientist G, INMAS,
DRDO, New Delhi



Subhash Kesarwani
Director, Ministry of
Communications, Kerala



Dr Anvita Singh
Medical Officer,
AIIMS, Rishikesh

Join us on: <https://tinyurl.com/yc346k3g>

June 22, 2020; 12:00 -1:10 PM